

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन

अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं./ईसीआई/प्रेस नोट/31/2018

दिनांक : 20 अप्रैल, 2018

प्रेस नोट

विषय: छह स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों से महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन और चित्तूर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद के लिए उप-निर्वाचन-तत्संबंधी।

छह(6) स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों से महाराष्ट्र विधान परिषद के छह(6) सदस्यों की पदावधि नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार 31 मई, 2018 एवं 21 जून, 2018 को समाप्त होने वाली है:

क्रम सं.	सदस्य का नाम	स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र का नाम	सेवानिवृत्ति की तिथि
1.	अनिल दत्तात्रे तातकरे	रायगड-सह-रत्नागिरी-सह-सिन्धुदुर्ग	31.05.2018
2.	जाधव जयवन्तराव पुंडलिकराव	नाशिक	21.06.2018
3.	भांगदिया मितेश गोतुलाल	वर्धा-सह-चन्द्रपुर-सह-गडचिरोली	
4.	अब्दुल्ला खान ए. लतीफ खान दुर्गानी	प्रभानी-सह-हिंगोली	
5.	प्रवीण रामचन्द्रजी पोटे	अमरावती	
6.	देशमुख दिलीपराव दागडोजीराव	उस्मानाबाद-सह-लातूर-सह-बीड	

2. आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद में एक आकस्मिक रिक्ति हुई है। रिक्ति का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	सेवानिवृत्ति की तिथि	अभ्युक्ति
1.	गली मुद्दुकृष्णनामा नायडु	चित्तूर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र	11.08.2021	07.02.2018 को मृत्यु

3. उक्त स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों से उपर्युक्त विधान परिषद के लिए निर्वाचित सदस्यों की पदावधि विशेष अनुमति याचिका(सी) सं. 17123/2015 (भारत निर्वाचन आयोग बनाम देवेश चन्द्र ठाकुर एवं अन्य) में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी;

4. आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उक्त स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों से महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन तथा चित्तूर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद के लिए एक उप निर्वाचन आयोजित करवाने का निर्णय लिया है:-

कार्यक्रम	दिन व तारीख
1	अधिसूचना जारी करना : 26 अप्रैल, 2018 (गुरुवार)
2	नाम निर्देशन की अंतिम तारीख : 03 मई, 2018 (गुरुवार)
3	नाम निर्देशनों की संवीक्षा : 4 मई, 2018 (शुक्रवार)
4	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख : 7 मई, 2018 (सोमवार)
5	मतदान की तारीख : 21 मई, 2018 (सोमवार)
6	मतदान का समय : पूर्वाह्न 08.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक
7	मतों की गणना : 24 मई, 2018 (गुरुवार)
8	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा : 29 मई, 2018 (मंगलवार)

5. आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू होगी। कृपया लिंक http://eci.nic.in/eci_main1/current/MCC_26122016.pdf के अधीन आयोग की वेबसाइट पर विवरणों को देखें।

(पवन दीवान)
अवर सचिव